

**मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी 2**  
**BASIC STATISTICAL RETURN 2 (BSR-2)**

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के पास जमा राशियाँ  
**DEPOSITS WITH SCHEDULED COMMERCIAL BANKS**  
(31 मार्च 200 को)  
(As on 31<sup>st</sup> March, 200 )

कृपया पुस्तिका और इस विवरणी के अंत में दी गयी 'जाँच सूची' में दिये अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

Please read the instructions in the Handbook and 'Check List' provided at the end of this return carefully.

बैंक का नाम / Name of the bank .....

शाखा का नाम और पता / Name & Address of the branch .....

एक समान शाखा कूट / Uniform Branch Code	
भाग / Part I	भाग / Part II

**रोजगार विवरण / EMPLOYMENT DETAILS**

कर्मचारी की श्रेणी Category of Staff	कूट संख्या Code No.	अधिकारी Officers	लिपिक Clerical	कर्मचारी Subordinate	कुल Total
	1	2	3	4	5
कुल / Total	100				
जिनमें महिलायें of which Female	101				

**भाग I : प्रकार के अनुसार जमा राशियों का वर्गीकरण**  
(सभी प्रकार की अनिवासी रुपया और विदेशी मुद्रा जमा राशियों सहित)  
**PART I: CLASSIFICATION OF DEPOSITS ACCORDING TO TYPE**  
(INCLUDING ALL TYPES OF NON-RESIDENT RUPEE AND FOREIGN CURRENCY DEPOSITS)

(खातों की वास्तविक संख्या और राशि हजारों में)  
(No. of Account in actual and Amount in thousands of rupees)

मद Item	जमा खाते का प्रकार Type of Deposit Account	कूट सं. Code	व्यक्तिगत INDIVIDUALS		अन्य / OTHERS (बैंकों के जमा राशि छोड़कर) (Excluding Deposits from Banks)		जोड़ TOTAL (Excluding Deposits from Banks)	
			खातों की संख्या No. of Accounts	बकाया राशि Amount Outstanding	खातों की संख्या No. of Accounts	बकाया राशि Amount Outstanding	खातों की संख्या No. of Accounts	बकाया राशि Amount Outstanding
		1	2	3	4	5	6	7
1	चालू / Current जिनमें से महिलाओं के खाते of which Female accounts	201						
		301			X	X		
2	बचत / Savings जिनमें से महिलाओं के खाते of which Female accounts	202						
		302			X	X		
3	मीयादी / Term जिनमें से महिलाओं के खाते of which Female accounts	203						
		303			X	X		
4	जोड़ / Total जिनमें से महिलाओं के खाते of which Female accounts	200						
		300			X	X		

कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें / Please furnish the following information :

आंतर-बैंक जमा राशियाँ / Total Inter-Bank Deposits	800	X	X	X	X		
समग्र जोड़ / Grand Total (कूट संख्या 200 और 800 की जोड़ राशि) /(Sum of code 200 and 800)	900	X	X	X	X		
कुल जमा राशियाँ (सेक्शन 42(2) के अनुसार) Aggregate deposits*(As per Section 42(2))	999	X	X	X	X	X	

भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रयोग के लिए / For the use of Reserve Bank of India  
द्वारा कूट बद्ध / Coded by.....  
द्वारा छान-बीन की गई / Scrutinised by.....

प्रबंधक के हस्ताक्षर  
Signature of the Manager.....  
दिनांक / Date.....

\* भारत में कुल जमा राशियाँ (बैंकों के छोड़कर) जैसे विवरणी 'क' में मार्च के अंतिम शुक्रवार को धारा 42(2) अनुसार दी गयी हो/  
Aggregate deposits (other than from banks) in India as reported under Form 'A' return, Section 42(2), as on last Friday of March.

(प्रपत्र मार्च 2002 सर्वेक्षण से जारी / Format effective from March 2002 survey)

**भाग II : परिपक्वता के अनुसार मीयादी जमाराशियों का वर्गीकरण**

(सभी प्रकार की अनिवासी रुपया और विदेशी मुद्रा जमाराशियों सहित)

(बैंकों की जमाराशियों को छोड़कर)

**PART II: CLASSIFICATION OF TERM DEPOSITS ACCORDING TO MATURITY  
(INCLUDING ALL TYPES OF NON-RESIDENT RUPEE AND FOREIGN CURRENCY DEPOSITS)**

*(Excluding Deposits from Banks)*

एक समान शाखा कूट / Uniform Branch Code	
भाग/Part I	भाग/Part II

(खातों की वास्तविक संख्या और राशि हजारों में)

(No. of Account in actual and Amount in thousands of rupees)

मद Item	परिपक्वता की अवधि Period of Maturity	कूट Code	व्यक्तिगत INDIVIDUALS		अन्य OTHERS (बैंकों की जमाराशियों को छोड़कर) (Excluding Deposits from Banks)		जोड़ TOTAL (बैंकों की जमाराशियों को छोड़कर) (Excluding Deposits from Banks)	
			खातों की संख्या No. of Accounts	बकाया राशि Amount Outstanding	खातों की संख्या No. of Accounts	बकाया राशि Amount Outstanding	खातों की संख्या No. of Accounts	बकाया राशि Amount Outstanding
			1	2	3	4	5	6
1	7 दिनों से 14 दिनों तक 7 days to 14 days	401						
2	15 दिनों से 29 दिनों तक 15 days to 29 days	402						
3	30 दिनों से 45 दिनों तक 30 days to 45 days	403						
4	46 दिनों से 90 दिनों तक 46 days to 90 days	404						
5	91 दिनों तथा उससे अधिक किन्तु 6 महीनों से कम 91 days & above but less than 6 months	405						
6	6 महीने और उससे अधिक किन्तु 1 वर्ष से कम 6 months & above but less than 1 year	406						
7	1 वर्ष और उससे अधिक किन्तु 2 वर्षों से कम 1 year & above but less than 2 years	407						
8	2 वर्ष और उससे अधिक किन्तु 3 वर्षों से कम 2 years & above but less than 3 years	408						
9	3 वर्ष और उससे अधिक किन्तु 5 वर्षों से कम 3 years & above but less than 5 years	409						
10	5 वर्ष और उससे अधिक 5 years & above	410						
11	<b>जोड़ TOTAL</b>	<b>400</b>						

**भाग III : ब्याज दरों की सीमा के अनुसार मीयादी जमाराशियों का वर्गीकरण**

(सभी प्रकार की अनिवासी रुपया और विदेशी मुद्रा जमाराशियों सहित)

(बैंकों की जमाराशियों को छोड़कर)

**PART III: CLASSIFICATION OF TERM DEPOSITS ACCORDING TO INTEREST RATE RANGE  
(INCLUDING ALL TYPES OF NON-RESIDENT RUPEE AND FOREIGN CURRENCY DEPOSITS)**

*(Excluding Deposits from Banks)*

एक समान शाखा कूट / Uniform Branch Code	
भाग/Part I	भाग/Part II

(खातों की वास्तविक संख्या और राशि हजारों में)

(No. of Account in actual and Amount in thousands of rupees)

मद Item	ब्याज दर की सीमा Interest Rate Range	कूट Code No.	व्यक्तिगत INDIVIDUALS		अन्य OTHERS (बैंकों की जमाराशियों को छोड़कर) (Excluding Deposits from Banks)		जोड़ TOTAL (बैंकों की जमाराशियों को छोड़कर) (Excluding Deposits from Banks)	
			खातों की संख्या No. of Accounts	बकाया राशि Amount Outstanding	खातों की संख्या No. of Accounts	बकाया राशि Amount Outstanding	खातों की संख्या No. of Accounts	बकाया राशि Amount Outstanding
			1	2	3	4	5	6
1	5 % से कम Less than 5 %	501						
2	5 % और उससे अधिक किन्तु 6 % से कम 5 % and above but less than 6 %	502						
3	6 % और उससे अधिक किन्तु 7 % से कम 6 % and above but less than 7 %	503						
4	7 % और उससे अधिक किन्तु 8 % से कम 7 % and above but less than 8 %	504						
5	8 % और उससे अधिक किन्तु 9 % से कम 8 % and above but less than 9 %	505						
6	9 % और उससे अधिक किन्तु 10 % से कम 9 % and above but less than 10 %	506						
7	10 % और उससे अधिक किन्तु 11 % से कम 10 % and above but less than 11 %	507						
8	11% और उससे अधिक किन्तु 12% से कम 11 % and above but less than 12 %	508						
9	12% और उससे अधिक किन्तु 13% से कम 12 % and above but less than 13%	509						
10	13% और उससे अधिक किन्तु 15% से कम 13 % and above but less than 15%	510						
11	15% और उससे अधिक 15 % and above	511						
12	<b>जोड़ TOTAL</b>	<b>500</b>						

**भाग IV : मीयादी जमाराशियों को उनके आकार के अनुसार वर्गीकरण**

(सभी प्रकार की अनिवासी रुपया और विदेशी मुद्रा जमाराशियों सहित)

(बैंकों की जमाराशियों को छोड़कर)

**PART IV: CLASSIFICATION OF TERM DEPOSITS ACCORDING TO SIZE OF DEPOSITS  
(INCLUDING ALL TYPES OF NON-RESIDENT RUPEE AND FOREIGN CURRENCY DEPOSITS)  
(Excluding Deposits from Banks)**

एक समान शाखा कूट / Uniform Branch Code	
भाग/Part I	भाग/Part II

(खातों की वास्तविक संख्या और राशि हजारों में)

(No. of Account in actual and Amount in thousands of rupees)

मद Item	ब्याज दर की सीमा Size of Deposits	कूट Code No.	व्यक्तिगत INDIVIDUALS		अन्य OTHERS		जोड़ TOTAL	
					(बैंकों की जमाराशियों को छोड़कर) (Excluding Deposits from Banks)		(बैंकों की जमाराशियों को छोड़कर) (Excluding Deposits from Banks)	
			खातों की संख्या No. of Accounts	बकाया राशि Amount Outstanding	खातों की संख्या No. of Accounts	बकाया राशि Amount Outstanding	खातों की संख्या No. of Accounts	बकाया राशि Amount Outstanding
		1	2	3	4	5	6	7
1	रु. 25,000 से कम Less than Rs.25,000	601						
2	रु. 25,000 और अधिक परंतु 1 लाख से कम Rs.25,000 & above but less than Rs.1 lakh	602						
3	रु. 1 लाख और अधिक परंतु 15 लाख से कम Rs.1 lakh & above but less than Rs.15 lakh	603						
4	रु. 15 लाख और अधिक परंतु 1 करोड़ से कम Rs.15 lakh & above but less than Rs.1 crore	604						
5	रु. 1 करोड़ और अधिक Rs.1 crore & above	605						
6	<b>जोड़ TOTAL</b>	<b>600</b>						

## जाँच सूची / CHECK LIST

कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि विवरणी भाग-I, भाग-II, भाग-III और भाग-IV में दी गयी जानकारी पूरी है और निम्नलिखित विवरण उचित स्थानों पर दिया गया है।

*Please ensure that the information in Part-I, Part-II, Part-III and Part-IV of the return is complete and the following particulars are reported at appropriate places.*

1. बैंक का नाम और शाखा का नाम तथा पता।  
Name of the bank and Name & address of the Branch.
2. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शाखा को आवंटित किया गया एक समान शाखा कूट (भाग-I, भाग-II)।  
The Uniform Branch Code (Part-I and Part-II) allotted to the Branch by Reserve Bank of India.
3. वर्ष, जिससे विवरणी संबंधित है।  
The year to which the return relates.
4. सभी प्रकार की अनिवासी और विदेशी मुद्रा जमा राशियां विवरणी में शामिल हैं।  
All types of Non-Resident and Foreign Currency deposits are included in the return.
5. कुल अंतर बैंक जमाराशि विवरणी के भाग-I में कूट संख्या 800 में लिखें।  
Total Inter-bank deposits are reported only in Item 800 of Part-I of the return.
6. विवरणी के भाग-II से भाग-IV में अंतर-बैंक जमा राशियां शामिल नहीं हैं।  
Inter-bank deposits are excluded in Part-II to Part-IV of the return.
7. रोजगार विवरण-स्टाफ की वास्तविक स्थिति (स्थायी और अस्थायी स्टाफ सहित) उपलब्ध कराये गये खंड में दर्ज की गयी है। अंशकालिक और अनियमित कामगार इसमें शामिल नहीं हैं।  
Employment details - The actual staff position (permanent and temporary staff together) is reported in the block provided. Part-time and casual workers are excluded.
8. भाग-II के कूट 400 के सामने दर्शाये गये खातों की कुल संख्या व बकाया कुल राशि भाग-I के कूट 203 में दिये गये जोड़ से मेल खाती है।  
The total number of accounts and the total amount outstanding reported against Item Code 400 in Part II under different columns agree with the total of those reported in columns against Code 203 in Part I.
9. भाग-III के कूट 500 के सामने दर्शाये गये खातों की कुल संख्या व बकाया कुल राशि भाग-I के कूट 203 में दिये गये जोड़ से मेल खाती है।  
The total number of accounts and the total amount outstanding reported against Item Code 500 in Part III under different columns agree with the total of those reported in columns against Code 203 in Part I.
10. भाग-IV के कूट 600 के सामने दर्शाये गये खातों की कुल संख्या व बकाया कुल राशि भाग-I के कूट 203 में दिये गये जोड़ से मेल खाती है।  
The total number of accounts and the total amount outstanding reported against Item Code 600 in Part IV under different columns agree with the total of those reported in columns against Code 203 in Part I.